



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2]

नई दिल्ली, मंगलवार, जनवरी 2, 2007/पौष 12, 1928

No. 2]

NEW DELHI, TUESDAY, JANUARY 2, 2007/PAUSA 12, 1928

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 2 जनवरी, 2007

सं. 1/2007-सीमा शुल्क

सा.का.नि.2(अ).—सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, इस बात से संतुष्ट होने पर कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है, एतद्वारा भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 69/2004-सीमा शुल्क, तारीख 9-7-2004 में पुनः निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :-

उक्त अधिसूचना में सारणी में :-

(i) क्रम सं. 1 में-

- (क) कॉलम सं. (2) में "5208 53, 5210 42, 5210 52, 5513 22 00, 5513 32 00, 5513 33 00, 5513 42 00, 5513 43 00, 5702 52, 6101 10, 8517 21 00, 8517 22 00, 8517 80, 8517 90 10, 8524 31, 8524 40, 8524 91" आंकड़ों का लोप किया जाएगा।
- (ख) कॉलम सं. (2) में "5514 31 00, 5514 32 00, 5514 33 00; 5514 39 00" आंकड़ों की जगह "5514 30" आंकड़ा प्रतिस्थापित किया जाएगा।
- (ग) कॉलम सं. (2) में "6104 19" आंकड़े की जगह "6104 19 (वूल अथवा विशुद्ध पशु बाल अथवा सूत को छोड़कर)" आंकड़ा प्रतिस्थापित किया जाएगा।
- (घ) कॉलम सं. (2) में "6207 99" आंकड़े की जगह "6207 99 (मानव निर्मित फाइबर के सामान को छोड़कर)" आंकड़ा प्रतिस्थापित किया जाएगा।
- (ङ) कॉलम सं. (2) में "8469 11 00" आंकड़े की जगह "8469 00 10" आंकड़ा प्रतिस्थापित किया जाएगा।
- (च) कॉलम सं. (2) में "8473 29" आंकड़े की जगह "8473 29 00" आंकड़ा प्रतिस्थापित किया जाएगा।
- (छ) कॉलम सं. (2) में "8473 50" आंकड़े की जगह "8473 50 00" आंकड़ा प्रतिस्थापित किया जाएगा।
- (ज) कॉलम सं. (2) में "8517 11, 8517 19" आंकड़ों की जगह "शीर्ष 8517 के लाइन टेलिफोनी सेट्स एवं लाइन विडियो फोन" आंकड़ें और शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे।
- (झ) कॉलम सं. (2) में "8520 20 00" आंकड़े की जगह "8519 50 00" आंकड़ा प्रतिस्थापित किया जाएगा।

- (ज) शीर्ष 8523 (8523 30 00 को छोड़कर) के अंतर्गत अध्याय 37 के उत्पादों को छोड़कर अन्य घटनाओं की ध्वनि रिकार्डिंग अथवा ऐसी ही रिकार्डिंग के लिए अनरिकार्डेड मिडिया तैयार किया (मेग्नेटिक स्ट्राइप सहित कार्डों को छोड़कर); प्रतिस्थापित किया जाएगा।
- (ट) कॉलम सं. (2) में "8524 31, 8524 40, 8524 91" आंकड़ों की जगह "शीर्ष 8523 के अंतर्गत ध्वनि अथवा छवि को छोड़कर घटना को पुनः प्रदर्शित करने के लिए अन्य रिकार्ड, टेप्स तथा अन्य रिकार्डेड मिडिया;" प्रतिस्थापित किया जाएगा।
- (ठ) कॉलम सं. (2) में "8542 90 00" आंकड़ों की जगह "इलेक्ट्रॉनिक इन्टीग्रेटेड सर्कट एवं माइक्रो असेम्बली को पुर्जे जो टैरिफ मद 8523 52 00 अथवा 8542 90 00 के अन्तर्गत आते हैं" शब्द एवं आंकड़े प्रतिस्थापित किए जाएंगे;
- (ड) कॉलम सं. (2) में "8543 81 00" आंकड़े की जगह "8543 59 10" आंकड़ा प्रतिस्थापित किया जाएगा।
- (ढ) कॉलम सं. (2) में "9027 80" आंकड़े की जगह "9027 80 (एक्सपोजर मीटरों को छोड़कर)" आंकड़े एवं शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे;
- (ii) कॉलम सं. (1) और उससे संबंधित प्रविष्टियों के बाद निम्नलिखित क्र. सं. और प्रविष्टियाँ जोड़ी जाएंगी, अर्थात् :-
- "1क उपशीर्ष 5702 50 के अंतर्गत मानव निर्मित वस्त्र सामग्री के कार्पेट तथा अन्य वस्त्र फ्लोर कवरिंग्स, बुवन, नॉट-टफ्टेड और फ्लोकेड;
- 1ख टैरिफ मद 6101 90 90 के अंतर्गत 6103 शीर्ष वाले मदों को छोड़कर पुरुष अथवा लड़कों के ओवरकोट, कार कोट्स, टोपियाँ, क्लोक्स, अनोरक्स, (स्काई जैकेट सहित), विंड चिटर, विंड जैकेट और ऐसे ही वूल अथवा विशुद्ध पशुबाल के सामान, निटेड अथवा क्रोचेटेड";
- (iii) क्रम सं. 8 में कॉलम सं. (2) में प्रविष्टि के लिए "अधिसूचना सं. 21/2002-सीमा शुल्क, दिनांक 1 मार्च, 2002 के साथ संलग्न सारणी में क्र. सं. 29, 30 और 31 के अंतर्गत शामिल माल को छोड़कर उपशीर्ष 1515 90 के अंतर्गत टंग ऑयल और इसके फ्रेक्शन्स", प्रतिस्थापित किए जाएंगे;
- (iv) क्रम सं. 11 और इससे संबंधित प्रविष्टियों के बाद निम्नलिखित क्र. सं. और प्रविष्टियाँ जोड़ी जाएंगी, अर्थात् :-
- "11(क) टैरिफ मद 8443 अथवा 8517 के अंतर्गत फेसिमाईल मशीन एवं टेलिप्रिंटर;
- 11(ख) टैरिफ मदों 8517 69 50, 8517 69 60, 8517 69 70, 8517 69 90 एवं 8517 70 10 के अन्तर्गत आने वाली सभी वस्तुएं;
- 11(ग) टैरिफ मदों 8443 31 00 एवं 8443 32 00 के अन्तर्गत आने वाली वस्तुओं के पुर्जे एवं एसेसरीज जो कि 8443 99 00 के अन्तर्गत आते हैं।
- 11(घ) उपशीर्ष 8517 62 के अन्तर्गत आने वाले ओटोमेटिक ड्राया प्रोसेसिंग मशीन की ईकाइयाँ;
- 11(ङ) टैरिफ मदों 8528 41 00, 8528 51 00 अथवा 8528 61 00 के अन्तर्गत आने वाली सभी वस्तुएं";
- (v) क्र. सं. 28 में "8524" आंकड़े के स्थान पर "8523" आंकड़े प्रतिस्थापित किए जाएंगे;
- (vi) क्र. सं. 29 में "8525 40 00" आंकड़े के जगह "8525 80 20" आंकड़े प्रतिस्थापित किए जाएंगे;
- (vii) क्र. सं. 42 में "उपशीर्ष 8543 89" शब्द एवं आंकड़ों के जगह पर "टैरिफ मद 8543 70 99" शब्द एवं आंकड़े प्रतिस्थापित किए जाएंगे;
- (viii) क्र. सं. 44 में "8544 41" आंकड़े के जगह "8544 49" आंकड़ा प्रतिस्थापित किया जाएगा;
- (ix) क्र. सं. 46 में "8544 51" आंकड़े के जगह "8544 42" आंकड़ा प्रतिस्थापित किया जाएगा।

[फा. सं. 528/5/2006-सीमा शुल्क (टीयू)]

जी. जी. पर्ई, अवर सचिव

टिप्पणी : मूल अधिसूचना सं. 69/2004-सीमा शुल्क दिनांक 9-7-2004, भारत के राजपत्र, असाधारण, सा.का.नि. 411(अ) दिनांक 9-7-2004 को प्रकाशित की गई थी एवं अंतिम बार इसका संशोधन अधिसूचना सं. 69/2006-सीमा शुल्क दिनांक 30-6-2006 [सा.का.नि. 395(अ) दिनांक 30-6-2006] द्वारा किया गया था।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 2nd January, 2007

No. 1/2007-CUSTOMS

G.S.R. 2(E).— In exercise of the powers conferred by Sub-section (1) of Section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), read with Section 91 read with Section 94 of the Finance Act (No.2), 2004 (23 of 2004), the Central Government, on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 69/2004-Customs, dated the 9th July, 2004, namely :—

In the said notification, in the Table,—

(i) against S. No.1,

- (a) the figures "5208 53, 5210 42, 5210 52, 5513 22 00, 5513 32 00, 5513 33 00, 5513 42 00, 5513 43 00, 5702 52, 6101 10, 8517 21 00, 8517 22 00, 8517 80, 8517 90 10, 8524 31, 8524 40, 8524 91," occurring in column (2), shall be omitted;
- (b) for the figures "5514 31 00, 5514 32 00, 5514 33 00, 5514 39 00" occurring in column (2), the figures "5514 30" shall be substituted;
- (c) for the figures "6104 19" occurring in column (2), the figures "6104 19 (except of wool or fine animal hair or cotton)" shall be substituted;
- (d) for the figures "6207 99" occurring in column (2), the figures "6207 99 (other than goods of man-made fibres)" shall be substituted;
- (e) for the figures "8469 11 00" occurring in column (2), the figures "8469 00 10" shall be substituted;
- (f) for the figures "8473 29" occurring in column (2), the figures "8473 29 00" shall be substituted;
- (g) for the figures "8473 50" occurring in column (2), the figures "8473 50 00" shall be substituted;
- (h) for the figures "8517 11, 8517 19" occurring in column (2), the figures "line telephone sets and line videophones of heading 8517" shall be substituted;
- (i) for the figures "8520 20 00" occurring in column (2), the figures "8519 50 00" shall be substituted;
- (j) for the figures and words "8523 (except 8523 30 00)" occurring in column (2), the figures and words "all prepared unrecorded media for sound recording or similar recording of other phenomena, other than products of Chapter 37 (excluding cards incorporating a magnetic stripe) of heading 8523," shall be substituted;
- (k) for the figures "8524 31, 8524 40, 8524 91" occurring in column (2), the words and figures "recorded media for reproducing phenomena other than sound or image, of heading 8523" shall be substituted;
- (l) for the figures "8542 90 00" occurring in column (2), the figures and words "parts of electronic integrated circuits and micro-assemblies, of tariff item 8523 52 00 or 8542 90 00" shall be substituted;
- (m) for the figures "8543 81 00" occurring in column (2), the figures "8543 59 10" shall be substituted;
- (n) for the figures "9027 80" occurring in column (2), the figures "9027 80 (except exposure meters)" shall be substituted;

(ii) after S.No.1, and the entries relating thereto, following S.No. and entries shall be inserted, namely :—

- 1A Carpets and other textile floor coverings, woven, not tufted or flocked, of man-made textile material falling under sub-heading 5702 50;
- 1B Men's or boys' overcoats, car coats, capes, cloaks, anoraks (including ski-jackets), wind-cheaters, wind-jackets and similar articles of wool or fine animal hair, knitted or crocheted, other than those of heading 6103 falling under tariff item 6101 90 90";

- (iii) against S. No.8, for the entry in column (2), the entry “Tung oil and its fractions falling under sub-heading 1515 90, other than goods covered under S. No. 29, 30 and 31 of the Table annexed to the notification No. 21/2002-Customs, dated 1st March, 2002” shall be substituted;
- (iv) after S.No.11 and the entries relating thereto, following S.No. and entries shall be inserted, namely :—
 - “11 A Fascimile machines and teleprinters, falling under headings 8443 or 8517;
 - 11 B All goods falling under tariff items 8517 69 50, 8517 69 60, 8517 69 70, 8517 69 90 and 8517 70 10;
 - 11 C Parts and accessories (falling under tariff item 8443 99 00) of all goods falling under tariff items 8443 31 00 and 8443 32 00;
 - 11 D Units of automatic data processing machines falling under sub-heading 8517 62;
 - 11 E All goods falling under tariff items 8528 41 00, 8528 51 00 or 8528 61 00”;
- (v) against S.No. 28, for the figures “8524”, the figures “8523” shall be substituted;
- (vi) against S.No. 29, for the figures “8525 40 00”, the figures “8525 80 20” shall be substituted;
- (vii) against S.No. 42, for the words and figures “sub-heading 8543 89”, the words and figures “tariff item 8543 70 99” shall be substituted;
- (viii) against S.No. 44, for the figures “8544 41”, the figures “8544 49” shall be substituted;
- (ix) against S.No. 46, for the figures “8544 51”, the figures “8544 42” shall be substituted.

[F. No. 528/5/2006-Cus. (TU)]

G. G. PAI, Under Secy.

Note: The principal notification No. 69/2004-Customs, dated the 9th July, 2004, was published in the Gazette of India, Extraordinary, *vide* G.S.R. 411(E), dated the 9th July, 2004 and was last amended by notification No. 69/2006-Customs, dated the 30th June, 2006 [No. G.S.R. 395(E), dated the 30th June, 2006].